June 20, 2024

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Symbol: CSLFINANCE

BSE Limited

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

BSE Script Code: 530067

Sub: Newspaper Publication for Shareholders of the Company

Dear Sir/Ma'am

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, we are enclosing herewith the Newspaper clippings of the Notice published by the company for the attention of its shareholders titled "NOTICE FOR COMPULSORY TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND & EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)."

The Company published the advertisement in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (All editions) on 20.06.2024
- 2. Jansatta (Delhi Edition) on 20.06.2024

This is for the information of the exchange and the members

Thanking You

For CSL Finance Limited

Ashok Kumar Kathuria (Director) DIN: 00045077

Enclosed: a/a

11

Continued from previous page..

Capital Advisors

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

CLARITY I TRUST I GROWTH

GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Thaltej, Ahmedabad -380 054, Gujarat, India. Telephone: +91 8777564648.

Facsimile: N.A.

Contact Person: Mohit Baid

Place: Delhi

Date: June 19, 2024

E-mail: info@gyrcapitaladvisors.com, Website: www.gyrcapitaladvisors.com

Investor grievance: investors@gyrcapitaladvisors.com

SEBI Registration Number: INM000012810

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

Selenium Tower- B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Telangana, India.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Tel No.: +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551 Website: www.kfintech.com, Email: nvl.ipo@kfintech.com; Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com

Contact Person: Mr. M Murali Krishna

SEBI Registration No.: INR000000221

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER



Ms. Varsha Bansal, is the Company Secretary and Compliance Officer of our Company. His contact details are set forth hereunder.

10 Community Centre No 2 Ashok Vihar Phase II, New Delhi, Delhi, 110052, India.

Telephone: +91-9818222845, Facsimile: N.A.

E-mail: cs@mediorganics.in

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https://www.medicamenorganics.com/investorcorner/, the website of the BRLM to the Issue at: www.gyrcapitaladvisors.com, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents , respectively. AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: 10 Community Centre, No 2 Ashok Vihar, Phase II, New Delhi, 110052, India; Telephone: +91-9818222845; BRLM: GYR Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 87775 64648 and the Syndicate

Member: GYR Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 87775 64648 and the Sub Syndicate Member: Eureka Stock & Share Broking Services Limited, Telephone: 033 66280000 (131) and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue, Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the

designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI. ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: AXIS BANK LIMITED

UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For MEDICAMEN ORGANICS LIMITED Ms. Varsha Bansal

Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: MEDICAMEN ORGANICS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana situated at Delhi on June 13, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporatefilings-offer-documents, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in

accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

10 TATA TATA POWER (Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2" Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following package (Two Part Bidding) in Transmission division, Mumbai. Supply and Services for Protection, Automation, Communication and Metering system for new


Power Transformers at Trombay Station-A, Mumbai (Package Reference no.: CC25NP016). or downloading the Tender documents (Including procedure for participation in tender) for above tenders, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com Last day for paying the tender fees and submission of authorization letter is 1500 hrs of 28" June 2024 for above tender. Also, all future corrigendum's (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website https://www.tatapower.com.only.

This advertisement is for information purposes not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States otherwise outside India. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated May 25, 2024 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE), and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

MANGALAM GLOBAL ENTERPRISE LIMITED mangalam

Corporate Identification Number: L24224GJ2010PLC062434 Registered Office: 101, Mangalam Corporate House, 42, Shrimali Society, Netaji Marg, Mithakhali, Navrangpura, Ahmedabad,

Gujarat, India, 380009. Website: www.groupmangalam.com; E-Mail; cs@groupmangalam.com; Telephone No: +91 79 61615000 Company Secretary and Compliance Officer: Dashang Manharlal Khatri



OUR PROMOTERS: MR. VIPIN PRAKASH MANGAL, MR. CHANAKYA PRAKASH MANGAL AND MR. CHANDRAGUPT PRAKASH MANGAL

RIGHT ISSUE OF UPTO 2,05,97,225 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 18 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE" AGGREGATING UP TO ₹4119.45 LAKHS* ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 7 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS: FRIDAY, MAY 24, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 118. THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 10 TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE

CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 118 OF THIS LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks to all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights issue of equity Shares, which opened for subscription on Monday, June 03, 2024 and closed on Wednesday, June 12, 2024 and the last date for on Market Renunciation of rights entitlements was Friday, June 07, 2024. Out of total 1000 Application for 21874881 Right Equity Shares 275 Application for 253599 Rights Equity Shares, were rejected due to technical reasons as discussed in the letter of offer. The total number of valid applications received were 725 for 21621282 Rights Equity Shares which was 104.97% total issue size. In Accordance with the Letter of offer and the Basis of allotment finalized on Friday, June 14, 2024 in Consultation with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") the designated Stock Exchange and the Registrar to the issue. The Management committee of the Company on Friday, June 14, 2024 has approved the allotment of 20597225 Rights Equity Shares to the successful applicants. In the issue, NIL Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Application after technical rejections have been considered for allotment The Break-up of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:-

No. of Rights Equity Shares No. of Rights Equity Shares Number of Valid accepted and allotted against accepted and allotted against

			1000	(A+B)
Eligible Equity Shareholder	872	10979393	9575484	20554877
Renouncees	128	42348	-	42348
Total	1000	11021741	9575484	20597225

	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
Category	Applications	Equity Shares A	Amount (₹)	Applications	Equity Shares	Amount (₹)	Applications	Equity Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	872	11707273	234145460.00	275	253599	5071980.00	597	11453674	229073480.00
Renouncees	128	10167608	203352160.00	0	0	0.00	128	10167608	203352160.00
Total	1000	21874881	437497620.00	275	253599	5071980.00	725	21621282	432425640.00

Intimations for allotment/refund/rejected cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation to the investors and intimation for rejection, as applicable, has been completed on June 19, 2024 The instruction for unblocking of funds in case of ASBA were issued to SCSBs on June 14, 2024 NA. The Listing application was filed with NSE on June 15, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of allotment in dematerialized form has been completed on June 19, 2024. For further details see "terms of the issue-Allotment advice/refund orders" On Page 132 of the letter of offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Right issue shall commence on NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about June 21, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference- SEBI/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights entitlements has been send to NSDL and CDSL on June 18, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of Letter of Offer to SEBI should not, in anyway, deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): "It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or

construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE".

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India Contact person: Ms. Shanti Gopalakrishnan

Tel: +91 22 4918 6200; Fax: +91 22 4918 6195

E-mail ID: mangalamglobal.rights@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in SEBI registration number: INR000004058

Investor grievance e-mail: mangalamglobal.rights@linkintime.co.in

CIN: U67190MH1999PTC118368

Date:- 19/06/2024

Place:- Ahmedabad

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER



MANGALAM GLOBAL ENTERPRISE LIMITED Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Dashang Manharlal Khatri

Address: 101, Mangalam Corporate House, 42, Shrimali Society, Netaji Marg, Mithakhali, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India. Email id: cs@groupmangalam.com

Contact Number: +91-07961615000

investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e mail address of the sole/ first holder; folio number or demat account number, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photo copy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process see "Terms of the Issue" beginning on page 118.

Mangalam Global Enterprise Limited

Dashang Manharlal Khatri Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company is proposing subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, a right Issue of its Equity Shares and has in

this regard filed a Letter of Offer dated May 25, 2024 with SEBI and National Stock Exchange of India Limited. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Registrar i.e. www.linkintime.co.in. Investors should note that Investment in equity shares involves a degree or risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factors on page 22 of the LOF. The announcement does not constitute an offer of Right Entitlements of Right Equity Shares for sale in any Jurisdiction, including the United States and any Rights Entitlements and Right Equity Shares described in these announcements may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an exemption from registration. There will be no public offering of Right Equity Shares in the United States.

NAMI STEEL PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION CIN: U27100GJ2012PTC071270

Regd. Add: Survey No. 316-P, 317-P, 342-P & 343-P. Nano Ford Road, Opp. Chharodi Railway Station, Sanand, Ahmedabad, Gujrat - 382110.

Sale of Corporate Debtor as a Going Concern under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 19th July, 2024 at 11:00 AM to 2:00 PM (With the unlimited extension of 10 minutes each)

E-Auction Notice

Sale of Corporate Debtor as a Going Concern by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench vide order dated 23rd April, 2024 in I.A. 1436 OF 2023 IN C.P.(IB) No. 236 of 2021. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform https://eauctions.co.in (Linkstar Infosys Private Limited) Details of the Assets Manner of Sale Block

Sale of Nami Steel Private Limited as a Going Concern as per the Regu-Sale as a lation 32(e) of the IBBI (Liquidation Process) Regulation, 2016 along with Going all assets including Land & Building, Plant & Machinery and Securities & Concern Financial Assets Incremental Value Reserve Price **Earnest Money Deposit** ₹ 45,00,00,000/-₹ 4,50,00,000/-₹ 10,00,000

Last date of submission of Eligibility 5th July, 2024 in the manner mentioned in detail E-auc-

tion Process Document Documents 8th July, 2024 Declaration of Eligible Bidder Inspection of Assets of Corporate From 9th July, 2024 to 16th July, 2024 Last Date for submission of Earnest 17th July, 2024

Date and time of E-Auction for 19th July, 2024 at 11:00 AM to 2:00 PM qualified bidders TERMS & CONDITIONS OF THE SALE IS AS UNDER:

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "NO RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited Contact persor on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Contact person: Mr. Dixit Prajapati Email idadmin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 9870099713

2. Documents shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the format prescribed the detailed E-auction Process Document on or before 5th July, 2024 before 05:00 P.M. . EMD shall be deposited with the Liquidator as prescribed in the detailed E-auction Process Document on or before 17th July, 2024 before 05:00 P.M. The bid form along with detailed terms & conditions of the complete E-auction process can be downloaded from the website https://eauctions.co.in. 4. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any

kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party/potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability 5. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the detailed E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted at cirpnamisteel@gmail.com.

Email ID: cirpnamisteel@gmail.com cabhavikr3@gmail.com Correspondence Address: SSARVI Resolution Services LLP, B-610, BSEL Tech Date: 20.06.2024 Park, Sec. 30 A, Vashi, Navi Mumbai- 400 705 Place : Navi Mumbai Contact No: +91 9082607703 (Call on WhatsApp)

Total Rights Equity

Shares accepted and

Money Deposit

BF INVESTMENT LIMITED Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036

CIN: L65993PN2009PLC134021 Website: www.bfilpune.com KALYANI Tel: +91 7719005777

CA Bhavik Haribhai Rupapara

Liquidator - Nami Steel Private Limited

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P 02741/2022-2023/14196

15th Annual General Meeting

Email: Secretarial@bfilpune.com

Notice is hereby given that the 15" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, July 31 2024 at 11:00 a.m. (I.S.T.) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without presence of Members at a common venue, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, ("the Act") and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended, read with MCA General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 respectively and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07 2023 read with Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/ 2023/120 dated July 11, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "MCA and SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening the 15" AGM.

In connection of the same, kindly note as follows: 1. Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year

a) will be sent to all Shareholders by email, whose email

- addresses are registered with the Company / Depository b) will also be uploaded on the website of the Company at
- www.bfilpune.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

2. Manner of registering / updating email addresses: a) Shareholders holding shares in Physical Form are requested

- to provide a signed request letter mentioning Folio No., email id, Name of the Shareholder, self attested copy of PAN Card by email to <u>pune@linkintime.co.in</u> to register their email address and mobile number.
- b) Shareholders holding shares in dematerialised form (DEMAT) are requested to register or update their email addresses and mobile number with their relevant depository participant(s). 3. Manner of casting vote(s) through e-voting:
- a) Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s)
- through remote e-Voting facility, on all resolutions set out in the Notice of the AGM. This remote e-Voting facility will also be available during the AGM. b) The detailed instructions for remote e-Voting by shareholders
- holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM. Book Closure for AGM :

The Register of Members and Share Transfer Books of the


Company shall remain closed on Wednesday, July 31, 2024 for the purpose of 15th AGM. This Notice is being issued for the information and benefit of all the

Members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-Voting and related matters, concern shareholders are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned Secretarial Department

Link Intime India Pvt. Ltd. Unit - BF Investment Limited BF Investment Limited Mundhwa, Pune - 411 036 Block No.202, Akshay Complex, Tel No.- +91 77190 05777 Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road, Pune - 411 001. Email: Maharashtra Tel-+91 20 26160084 / 26161629

For BF Investment Limited

Sd/-Gayatri Pendse Karandikar



IEPF Suspense Account

shares in physical form, the Company shall issue share certificates in lieu of the original share certificates held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, original share certificates registered in their name shall stand automatically cancelled and for members holding shares in electronic form, the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the IEPF Authority.

or before September 30 2024, at the Registered Office address of the Company or Company's Registrar and Transfer Agent, Kfin Technologies Limited ("RTA") at the address mentioned below. In case Company does not receive the valid claim from the concerned shareholders on or before September 30, 2024, the Company shall, with a view to comply with

requirements set out in the Rules, transfer the shares of the concerned shareholders of IEPF Suspense Account. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules after the aforesaid date.

In case of any query the concerned shareholder may contact the Company at nvestor@radico.co.in or RTA at Salenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District Nanakramguda , Selingampally Mandal, Hyderabad -500032 Telangana, Toll free no. 1-800-309-4001, Email einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com.

Dinesh Kumar Gupta

Place : New Delhi Date: 19.06.2024

Sr. VP - Legal & Company Secretary

CIN: L74899DL1992PLC051462

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Corp. office: 716-717, 7th floor, Tower B. World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301

Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in NOTICE FOR COMPULSORY TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND &

EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF).

Transfer, and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time (including any statutory modification(s), enactment(s) thereof for the time being in force) (hereinafter referred to as "IEPF Rules") available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in has inter-alia, specified the manner for transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend along with the equity shares in respect of which dividend is unpaid or unclaimed for a period of seven years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. Shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven years i.e. from the Financial Year 2016-17 and equity shares on which dividend has not been claimed for seven consecutive years i.e. from the Financial Year 2016-17 is/are liable to be to IEPF as provided under the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules.

(SS-3), the company has uploaded details i.e. Name and Folio No. /DPID-CLID of such shareholders whose dividend and equity shares are due for transfer to IEPF on its website www.cslfinance.in under Investors> Information for Shareholders Section. The Company shall initiate the transfer of equity shares to IEPF in respect of which dividend stands unpaid/unclaimed upto 15"September, 2024.

transferred shall also be credited to the IEPF

and on submission of necessary forms and documents to the IEPF Authority. You are also hereby informed that upon transfer of equity shares and unpaid/unclaimed

dividend to IEPF, no claim shall lie against the Company/RTA. (IEPF Rules and web-form IEPF-5 for claiming Refund of equity shares and dividend are available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in.) In view of the above, you are once again requested to claim your unpaid/unclaimed dividend,

if any immediately on or before 15th September, 2024. Procedure for claim of unpaid/unclaimed dividend:

equity shares in demat form, please send form ISR-1, copy of PAN/PAN(s) (in case of please update your bank detail in joint holders), original cancelled cheque (name of 1st

a request letter to RTA.

your demat account and send | Holder printed on it) or copy of bank passbook having updated client master along with MICR Code, IFSC and A/c No., duly attested by the Bank Manager, Form ISR-2 (in case of signature mismatch with our records/or missing) and Form SH-13 or Form ISR-3 (which can be downloaded from the Website of RTAi.e. www.masserv.com.)

In case you have any queries on the subject matter, you may contact our Registrar and Share

M/s MAS Services Limited T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020

Preeti Gupta (Company Secretary & Compliance Officer)

financialexp.epapr.in

Email: pune@linkintime.co.in Place: Pune

Date: June 19, 2024

Secretarial@bfilpune.com

Company Secretary

New Delhi

Email: invstor@masserv.com For CSL FINANCE LIMITED

Tel. No.: 0595-2350601/2, 2351703 Fax No.: 0595-2350009 Email ID: investor@radico.co.in, Website: www.radicokhaitan.com Transfer of Equity Shares of the Company to

Radico

RADICO KHAITAN LIMITED

CIN: L26941UP1983PLC027278

Registered Office: Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)

Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This notice is given pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies

Act. 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendments thereto ("Rules"). The said Rules amongst other matters, contain provisions for transfer of shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years, in the name of Investor Education and Protection Fund Suspense Account "IEPF Suspense Account"). The Shareholders may note that the shares, in respect of which the dividend declared by the Company for the financial year 2016-17

which remained unclaimed for seven consecutive years, are due for transfer to the

Accordingly, individual communication is being sent to all the concerned

The details of shareholders whose shares are due for transfer to IEPF Suspense Account are made available on website of the company at www.radicokhaitan.com. The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website would be regarded and shall be deemed as adequate Notice in respect of transfer of Shares to the IEPF Suspense Account pursuant to the Rules. In this connection, concerned members may please note that for members holding

In order to avoid transfer of shares to IEPF, any member whose name is appearing in the above said list shall send a request letter alongwith requisite documents, on

For Radico Khaitan Limited

CSL Finance Limited

Dear Shareholders(s) We wish to inform you that pursuant to Section 124(5) and (6) of the Companies Act, 2013 (the "act"), read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit,

In compliance with the provisions of IEPF Rules read with Secretarial Standard on Dividend

We would further like to state that future dividend/benefit, if any, in respect of equity shares so

Upon transfer of equity shares and unpaid/unclaimed dividend to the IEPF, the claimant can claim those equity shares and unpaid/unclaimed dividend in accordance with the procedure

In case shareholders holding In case shareholders holding shares in physical form,

In this regard the company has also sent letter(s) by ordinary post to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF

Tel: 011-26387281-83, FAX: 011-7384,

Date: 20" June, 2024 Place: Noida

<u>'IMPORTANT''</u>

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

[दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016	क सूचना (आईबीसी) की धारा 102 के अंतर्गत] के क्रेडीटर्स के ध्यानार्थ	एजेन्डा किसान आदर्श सोसाइटी खादुजर अमरोहा के आजीवन सदस्यों की एक बैठक दिनांक
पर्सनल गारंट	र का विवरण	23-06-2024 दिन रविवार प्रातः 11 बजे
टर का नाम	सुश्री रितु रानी वासुदेव	विद्यालय प्रांगण में उपनिबंधक चिट्स
गारंटर का पता	एच. नं. 84, अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 साथ ही : 174, कोहट एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 साथ ही : 1, पाल मोहन अपार्टमेन्ट, क्लब रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 साथ ही : बी 1/3, एलजीएफ, अवतार एन्क्लेव, पश्चिम विहार नई दिल्ली–110063	मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के आदेश संख्या 584/1-6272/मुरा० /दिनांक :- 14/06/2024 के अनुपालन में होनी निश्चित की गयी है जिसमे सदस्यों की उपस्थिति प्रथिंनीय है। 1. पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार 2. सोसाइटी के नए सदस्य बनाने पर

पश्चिम विहार, नई दिल्ला-110063 आईबीसी, 2016 के अंतर्गत पर्सनल गारंटर के संदर्भ 13.6.2024 में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तिथि दावे जमा करने की अंतिम तिथि 10.7.2024 प्रस्ताव कर्मी का विवरण प्रस्ताव कर्मी के रूप में कार्यरत इन्सॉल्बेन्सी शान्तनु कुमार सामन्ता आईबीबीआई पंजीकरण प्रॉफेश्नल का नाम तथा पंजीकरण संख्या

IBBI/IPA-001/IP-P02324/2020-2021/13511 एएफए वैद्यता : 14.01.2025 तक बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का पता तथा सी-170, गोल्फ व्यू अपार्टमेन्ट्स, साकेत, दिल्ली-110017 ईमेल आईडी ईमेल : santanukumar@yahoo.com

प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने यूनिट नं. 112, 1 ला तल, टावर ए, स्पेजएड्स

ईमेल : pgjambuknits@gmail.com दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 अथवा लागू होने वाले किसी भी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार गलत अथवा भ्रामक दावे जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि पर्सनल गारंटर के विरुद्ध आईबीसी, 2016 की धारा 95(1) के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दाखिल आईबी-31 (एनडी)/2024 में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, कोर्ट-क्क्क ने आदेश तिथि 13.6.2024 के माध्यम से आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत सुश्री रितु रानी वासुदेव के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू किया है। तदनुसार, सुश्री रितु रानी वासुदेव के क्रेडीटरों को ऊपर क्रम सं. ७ में वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास 10.7.2024 को या पूर्व निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण के साथ दावे जमा करने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

क्रेडीटर्स अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा हाथों-हाथ अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा/पंजीकृत करा सकते हैं तिथि : 19.06.2024 शान्तनु कुमार सामन्ता

स्थान : नई दिल्ली

वाला पता तथा ईमेल आईडी

पर्सनल गारंटर का नाम

2. 2. पर्सनल गारंटर का पता

[विनियम ३३(२) देखें पंजी. ए/डी, दस्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रकाशन द्वारा।

कॉमर्सियल टावर, सेक्टर-47, सोहना रोड, गुरूग्राम

वसूली अधिकारी – ।/।। का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित किया गया है)

मांग सूचना ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की घारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

आरसी / 195 / 2023 भारतीय स्टेट बैंक

सुमित शर्मा एवं अन्य

पुत्र श्री सुनील शर्मा, निवासी जे-158, भूतल, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली (सीडी2) मैसर्स नालंदा बिल्डर्स एंड एएमपी. डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड

पता : प्रथम तल, शांति मॉल, राम नगर कॉलोनी चर्च रोड, अपने निदेशकों के माध्यम से (प्रतिवादी संख्या ३ से 5) आगरा, उत्तर प्रदेश।

(सीडी3) श्री अशोक कुमार तिवारी, निदेशक नालंदा बिल्डर्स एंड एएमपी डेवलपर्स (इंडिया) लिमिटेड, प्रथम तल, शांति मॉल, राम नगर कॉलोनी चर्च रोड आगरा, उत्तर प्रदेश।

(सीडी4) श्री अंकुर दुबे, निदेशक नालंदा बिल्डर्स एंड एएमपी डेवलपर्स (इंडिया) लिमिटेड प्रथम तल शांति मॉल राम नगर कॉलोनी चर्च रोड आगरा, उत्तर प्रदेश। (सीडी5) श्री सुशील कुमार सिंगला, निदेशक नालंदा बिल्डर्स एंड एएमपी डेवलपर्स (इंडिया) लिमिटेड

प्रथम तल शांति मॉल राम नगर कॉलोनी चर्च रोड आगरा, उत्तर प्रदेश। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए/438/2018 के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसरण में निर्गत वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. **22,47,527/— (रुपये बाईस लाख सैंतालीस हजार पांच सौ सत्ताईस मात्र)** की एक राशि और 06/03/2018 से प्रभावी होकर वसुलीकरण तक 8: की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर पेंडेंलाइट एवं भावी

ब्याज और **रु. 25005 (रुपये पच्चीस हजार पांच मात्र)** की लागत (संयुक्त रूप में एवं अलग–अलग रूप में ' पूर्णतः / सीमित रूप में) आपके विरुद्ध देय हो गये हैं। आपको एतदद्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश

दिया जाता है, अन्यथा वसूली जो है वह बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम 1993 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुसार की जायेगी। . आपको एतदद्वारा अगली सुनवाई की तिथि को या इससे पूर्व एक शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों के

विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है। आपको एतदद्वारा भावी कार्यवाहियों के लिये 25 / 09 / 2024 को प्रातः 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के

सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाता है। . उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होंगे

(क) प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाहियों की इस सूचना के तुरंत बाद आरंभ होनेवाली अवधि के लिये

(ख) इस सूचना और वारंटों की सेवा तथा अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिये की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संदर्भ में वहनकृत सभी लागतें, शुल्क तथा व्यय। इस 26/04/2024 की तिथि को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायाधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत

वसूली अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

प्रिय शेयरधारक(ओं)

CSL Finance सीआईएन: L74899DL1992PLCO51462 पंजीकृत कार्यालयः 410-412,18/12, 4वीं मंजिल, डब्लू.ई.एफ, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

कॉर्पोरेट कार्यालयः 716-717, 7वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, नोएडा,

सेक्टर-16, यू.पी.-201301 टेलीफोनः 0120-4290654, ईमेलः info@cslfinance.in; वेब: www.cslfinance.in

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कंपनी के अवैतनिक / अदावा किए गए लाभांश और इक्विटी शेयरों के अनिवार्य हस्तांतरण के लिए सूचना।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(5) और (6) के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ समय-समय पर संशोधित (किसी भी वैधानिक संशोधन, अधिनियमन सहित) (जिसे बाद में ''आईईपीएफ नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक / अदावा किए गए लाभांश के साथ-साथ उन इक्विटी शेयरों को स्थानांतरित करने का तरीका निर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है। जिन शेयरधारकों ने सात वर्षों की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2016–17 से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और जिन इक्विटी शेयरों पर लगातार सात वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आईईपीएफ नियमों के साथ पढ़े गए प्रावधान के अनुसार आईईपीएफ के लिए उत्तरदायी हैं।

लाभांश पर सचिवीय मानक (एसएस-3) के साथ पठित आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.cslfinance.in पर निवेशकोंझ शेयरधारकों के लिए सूचना अनुभाग के अंतर्गत ऐसे शेयरधारकों के विवरण अर्थात नाम और फोलियो संख्या / डीपीआईडी-सीएलआईडी अपलोड कर दिए हैं, जिनके लाभांश और इक्विटी शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने हैं। कंपनी 15 सितंबर, 2024 तक उन इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने की पहल करेगी, जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है/दावा

हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में भविष्य में लाभांश / लाभ, यदि कोई हो, भी आईईपीएफ में जमा किया जाएगा।

आईईपीएफ को इक्विटी शेयरों और अवैतनिक / अदावाकृत लामांश के हस्तांतरण पर, दावेदार प्रक्रिया के अनुसार और आईईपीएफ प्राधिकरण को आवश्यक प्रपंत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन इक्विटी शेयरों और अवैतनिक / अदावाकृत लाभांश का दावा कर सकता है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इक्विटी शेयरों और अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश को

आईईपीएफ में स्थानांतरित करने पर, कंपनी / आरटीए के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। (इक्विटी शेयरों और लाभांश की वापसी का दावा करने के लिए आईईपीएफ नियम और वेब-फॉर्म आईईपीएफ –5 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।) युक्त के मद्देनजर, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप अपने अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो, का दावा 15 सितंबर, 2024 को या उससे पहले तुरंत करें। अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश के दावे की प्रक्रियाः

यदि शेयरधारक डीमेट यदि शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, तो कृपया फॉर्म क्तप में इक्विटी शेयर आईएसआर—1, पैन/पैन की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में), मूल रह चिक (इस पर प्रथम धारक का नाम मुद्रित हो) या बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत कृपया अपने डीमैट खाते सत्यापित एमआईसीआर कोड, आईएफएससी और खाता संख्या वाली बैंक में अपना बैंक विवरण पासबुक की प्रति, फॉर्म आईएसआर –2 (यदि हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड से अपडेट करें और आरटीए मेल नहीं खाते हैं / या गुम हैं) और फॉर्म एसएच–13 या फॉर्म आईएसआर को अनुरोध पत्र के साथ –3 (जिसे आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com से डाउनलोड अपडेटेड क्लाइंट मास्टर किया जा सकता है) भेजें।

इस संबंध में कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर साधारण डाक से पत्र भी भेजे हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं।

यदि आपको विषय–वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो आप हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क

मेसर्स एमएएस सर्विस लिमिटेड टी-34 द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज **–।।, नई दिल्ली**– 110020 दूरभाषः 011-26387281-83, फैक्सः 011-7384, ईमेलः invstor@masserv.com

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

दिनांक: 20 जून, 2024 स्थानः नोएडा

प्रीति गुप्ता (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

सार्वजनिक सूचना

हमारे 'क्लाइंट' की ओर से यह सूचना दी जाती है कि हम रियायत व्यवस्था के तहत निम्नलिखित के सम्पूर्ण या हिस्से का लाइसेंस देने के संबंध में निम्नलिखित के स्वामित्व की

(क) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉपोर्रेशन वेयरहाउस, प्लॉट नंबर बी-13 से बी-15, पॉकेट बी ओखला औद्योगिक क्षेत्र -1, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 3.813 एकड़ (15,430.67

(ख) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉपोर्रेशन वेयरहाउस, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नरेला, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 5 एकड़ (20,234.30 वर्ग मीटर) है

(इसके बाद, सामृहिक रूप से, 'अनुसुचित संपत्ति' के रूप में संदर्भित)।

कोई भी व्यक्ति/संस्था(यें) जो अनुसुचित संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी बिक्री हस्तांतरण, विनिमय, असाइनमेंट, समझौते, अनुबंध, बिक्री, आउटगोइंग, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, विकास क्षमता, विकास अधिकार, वसीयत, रिलीज, त्याग, किसी भी न्यायालय के डिक्री या आदेश, ऋणभार, बंधक (इक्वीटेबल या अन्यथा), पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, रखरखाव लाइसेंस, उपहार, विरासत, उत्तराधिकार, दृष्टिबंधक, अविभाजित हिस्सा, कब्जा, सुखभोग, ट्रस्ट, वसीयत, उप-पट्टा, अंडर-लीज, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लीव एंड लाइसेंस, इसमेन्ट, विकल्प, पहले इनकार का अधिकार या पहले प्रस्तावक का अधिकार या किसी भी प्रकृति, वाचा या शर्त, साझेदारी, ट्रस्ट, पारिवारिक व्यवस्था / समझौते, या अन्य निपटान, या किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी लिस पेंडेंस, इन्जंक्शन, अटैचमेंट, डिक्री या आदेश या पुरस्कार के तहत राजस्व या वैधानिक प्राधिकरण या मध्यस्थता, या अन्यथा किसी भी तरह से, या किसी भी समझौते, विलेख, दस्तावेज या पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी भी तरह की किसी भी आपत्ति के तहत किसी भी प्रकार का अधिकार, स्वामित्व, दावा, लाभ, ग्रहणाधिकार, मांग या हित रखता है या उसका दावा करता है, इस नोटिस की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उनके नीचे उल्लिखित पते पर इसके समर्थन में दस्तावेजी सबुत की नोटरीकृत/प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ लिखित रूप में इसकी सुचना देना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि अनुसुचित संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट,

विध और विपणन योग्य है और इस पर किसी का कोई अधिकार/स्वामित्व/हित/दावा/मांग नहीं

है। सहायक दस्तावेजों के बिना किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया अपने लिफाफे पर [नोटिस - प्रोजेक्ट होराइजन] लिखें।

एडवोकेट अभिलाष पिल्लई, पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास, एडवोकेट और सॉलिसिटर, प्रेस्टीज फाल्कन टॉवर, तीसरी मंजिल, ब्रंटन रोड,

एमजी रोड के पास, बैंगलोर - 560025,

दिनांकः 20.06.2024 स्थानः दिल्ली

कर्नाटक, भारत, दूरभाषः ०८० ६७७२२००० नैनीताल बेंक

शाखा - मुख्य चौराहे के पास, एल.बी.एस. कॉलेज रोड, एनएच-८, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान-३०३१०८ फोन नं.: 01421- 248251

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के सम्बन्ध में निम्निलिखित ऋणियों एवं जमानतियों द्वारा नैनीताल बैंक की मुख्य चौराहे के पास, एल.बी.एस. कॉलेज रोड, एनएच-८, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान-303108 शाखा से लिया गया ऋण अनर्जक आस्ति हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक द्वारा पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस बैंक शाखा में वापस आ गए हैं। यदि ऋणी/जमानतियों द्वारा बैंक की उपरोक्त अवशेष राशि का भुगतान 60 दिन के अन्दर बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उक्त में उल्लिखित भूमि-भवन/मशीनरी का कब्जा सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत लेने के लिए बाध्य होगा।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. निखिल कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा (कर्जदार), नि० वार्ड नं. ०७, संजीवनी हास्पिटल के पास, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान-303108 2. निलेश कुमार सैनी पुत्र कुलदीप कुमार सैनी (जमानती), नि0 वार्ड नं. 24, बुचाहेड़ा, कोटपुतली, राजस्थान–303108 3. बबलू सैनी पुत्र प्रकाश चन्द सैनी (जमानती), नि० वार्ड नं. ०२, धानी जडावली, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान-.303108 डिमान्ड नोटिस दिनांक 22.05.2024 को रु. 4,42,105.70 (रुपये चार लाख बयालिस हजार एक सौ पांच एवं सत्तर पैसे मात्र दिनांक 11.05.2024 तक) दिनांक 12.05.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसुली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

द्रष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : दिष्टबंधक वाहन जिसका विवरण - मॉडल का नाम मारुति स्विपट जेडएक्सआई, मेकर्स का नाम – मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, रंग– पर्ल आविर्टक व्हाईट, चेसिस नं. : MBHCZC63SLJ639001, इंजन नं. : K12MP1263149, पंजीकृत संख्या RJ32CA7041 निर्माण का माह/वर्ष - 09/2020, वाहन दिनांक 24,11,2020 को निखिल शर्मा के नाम पर दर्ज है।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. अर्चना शर्मा पत्नी प्रशांत शर्मा (कर्जदार), निवासी मकान नंबर 3, शक्ति विहार, वार्ड नंबर 16, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान-303108 2. प्रशांत शर्मा पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा (कर्जदार), निवासी मकान नंबर 3,शक्ति विहार, वार्ड नंबर 16, कोटपुतली, राजस्थान -303108 3. पवन शर्मा पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा (जमानती), निवासी मकान नंबर 1, वार्ड नंबर 16, शक्ति विहार, वार्ड नंबर 16, कोटपुतली, राजस्थान -303108 संतोष शर्मा पत्नी विजय कुमार शर्मा (जमानती), निवासी बस स्टेंड, बनेठी, कोटपुतली, कोटपुतली, राजस्थान - 3031081

डिमान्ड नोटिस दिनांक 10.06.2024 को रु. 10,06,269.45 (रुपये दस लाख छह हजार दो सौ उन्हत्तर एवं पैसे पैतालीस मात्र दिनांक 21.05.2024 तक) दिनांक 22.05.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसुली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दुष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा नं. 645 और 728, प्लॉट नंबर 2-बी, श्याम कॉलोनी, ग्राम बुचेहरा, कोटपुतली, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान -303108 में स्थित है। क्षेत्रफल 75.22 वर्ग गज। उक्त संपत्ति दिनांक 27.12.2013 को कोटपुतली के उप निबन्धक कार्यालय में पुस्तक सं. 1, खंड नं. 589, पृष्ठ सं. 98 और क्रम सं. 2013011233 एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, खंड सं. 1735 पुष्ठ सं. 333-338 पर अर्चना शर्मा के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सेल डीड के अनुसार सीमाएं - पुरव में अन्य पक्ष की भूमि, पश्चिम में 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर में प्लॉट नं, 3, दक्षिण में प्लॉट नंबर 2-ए।

ऋणी एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि बैंक की मुख्य चौराहे के पास, एल.बी.एस. कॉलेज रोड, एबएच-८, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थाब-303108 शाखा में स्वयं उपस्थित हो 13(2) के अन्तर्गत प्रेषित डिमाण्ड नोटिस प्राप्त कर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 60 दिन के भीतर अवशेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

प्राधिकृत अधिकारी रथान : कोटपुतली, राजस्थान दिनांक : 20.06.2024

परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

जे.एम.एल. मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत (माननीय एनसीएलटी के दिनांक 26 मई, 2023 (आदेश 27.05.2023 को प्राप्त हुआ)

के आदेश के तहत परिसमापन प्रक्रिया

के तहत सीआईएन: U15490UP2002PTC026613 वाली कंपनी) पंजीकृत कार्यालयः सी—13, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, नैनी इलाहाबाद यूपी— 211010 परिसमापक का कार्यालयः 8 / 28, तीसरी मंजिल, उब्ल्यू ई.ए., अब्दल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

दस्तावें जो जमा करने की अंतिम तिथि: 04 जलाई 2024 (बहस्पतिवार) योग्य बोलीदाता की घोषणा की तिथि: 09 जुलाई 2024 (मंगलवार) नीलागी के तहत परिसंपत्तियों का निरीक्षण, उत्रू डिलिजेंस: 16 जुलाई 2024 (मंगलवार) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 17 जुलाई 2024 (बुधवार) तक ई-नीलामी की तिथि और समयः 20 जुलाई 2024 (शनिवार)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा जे.एम.एल. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री (परिसमापन में) | बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई—मीलामी प्लेटफॉर्म https://www.eauctions.co.in के माध्यम से की जाएगी

बिक्री के लिए संपत्ति और संपत्ति का मल विवरणः

समृह	संपत्ति	ई नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मृल्य (सः)	प्रारोभक ईएमडी सजि (रू)	वृद्धिशील मृत्य (रू)
Ų.	सी—13 यूपीएसआईडीसी नैनी, इलाहाबाद में 4180.69 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री लीज्ड लेंड एंड बिल्डिंग, प्लाट एंड मशीनरी "जैसा आधार है, जैसा आधार है, जो भी आधार है, जो भी आधार है और बिना किसी आधार के" है।	दिनांकः 20.07.2024 (शनिवार) समयः सुब्रह 11:00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रूपये 3,19,00,000/-	रूपये 31,90,000/-	रूपये 25,000 / -
बी	सी—13 यूपीएसआईडीसी नैनी इलाहाबाद में इन्वेंट्री सहित संयंत्र और मशीनरी 'जहां है, जैसा है, जो भी है और बिना किसी आधार के	विनाक: 20.07.2024 (शनिवार) समय: दोपहर 1:00 बजे से साय 3:00 बजे (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रूपये 1,37,00,000/-	रूपये 13,70,000/-	रूपये 25,000 / -
सी	सी—13 यूपीएसआईडीसी नैनी इलाहाबाद में 4180.69 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थित भूमि एवं भवन का निर्माण "जहां है, जैसा है, जो भी है और विना किसी आधार के"	दिनांक 20.07.2024 (शनिवार) समयः सायं 3:00 वर्ज से सायं 5:00 वर्ज (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रूपये 1,82,00,000/-	रूपये 18,20,000/-	रूपये 25,000 / -

दिनांक 20.06.2024

स्थानः नई दिल्ली

ए । ग्रुप ए के लिए कोई भी सफल बोली प्राप्त होने की स्थिति में, ग्रुप बीऔर सी के लिए नीलामी प्रक्रिया रह कर दी जाएगी मी एण्ड युप ए के लिए कोई सफल बोली प्राप्त न होने की स्थिति में, युप बी और सी के लिए नीलामी प्रक्रिया जारी रखी जाएगी

ग्रुप बी के लिए नीलामी प्रक्रिया सबसे पहले होगी, जिसमें प्लांट और मशीनरी और फैक्ट्री परिसर में पड़ी इन्वेंट्री ग्रुप सी के लिए नीलामी प्रक्रिया ग्रुप बी के लिए सफल बोली प्राप्त होने के बाद ही होगी। यदि ग्रुप बी के लिए कोई सफल बोली प्राप्त नहीं होती है, तो युप सी के लिए नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी

ई—नीलामी के नियम और शर्तें और संपत्तियों के अन्य विवरण वेबसाइट यानी http://www.eauctions.co.in पर अपलोड किये गये हैं। कोई भी इच्छ्क खरीदार चेक आउट कर सकता है और उसी के लिए बोली जमा कर सकता है। ई—नीलामी एजेंसी (लिकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से संपर्क व्यक्ति : श्री इश्लाक 🗸 श्री विजय पिपलिया, ईमेल admin@eauctions.co.in, मोबाइल नंबर: 9870099713

परिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्तिः मदन मोडन धूपर, ईमेल आईडी : cirp.jmlmarketings@gmail.com मोबाइल:+91-9915031322

परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्बीकार करने या ई—नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को चापस लेने का पूर्ण अधिकार है। मदन मोहन घ्पर

जे.एम.एल. मार्केटिंग्स प्राइवेट लिमिटेडके मामले में परिसमापक पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00860/2019-2020/12768 पता: 8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए., अब्दुल अज़ीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 | ईमेल: cirp.jmlmarketings@gmail.com नई दिल्ली

मुंबई ऋण वसूली न्यायाधिकरण संख्या ।। अंतरिम आवेदन संख्या 689/2022 मूल आवेदन संख्या 392/2018 के बीचः

युनियन बैंक ऑफ इंडिया (पहले आंध्रा बैंक)

मेसर्स निपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

जबिक, ओ.ए. संख्या 392 / 2018 को माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी 2, मुंबई के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब आवेदक ने आई.ए. संख्या 689 / 2021 प्रस्तुत किया था, जिसमें रिकॉर्ड पर संशोधन करने के लिए विस्तार के लिए आवेदन दायर करने के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति मांगी गई थी और अन्य पक्षों को उक्त आई.ए. संख्या 689/2021 की तामील करने के लिए समय मांगा था।

जबिक आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7 और 8 को स्पीड पोस्ट / ए.डी. द्वारा उक्त आई.ए. संख्या 689/2021 की तामील करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे डाक टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया था "ऐसा कोई व्यक्ति नहीं" जिसे सेवा हलफनामे (प्रदर्श 16) के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया है। जबिक आवेदक ने 19.04.2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी–2, मुंबई के समक्ष आई.ए. प्रस्तुत किया और स्थानीय समाचार पत्रों, यानी फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी) और नवशक्ति (मराठी) में इस नोटिस को प्रकाशित करके सभी प्रतिवादियों को तामील करने के लिए समय मांगा, जिसे इस न्यायाधिकरण ने अनुमित दे

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दिनांव अन्यथा उक्त आई.ए.एस. पर आपकी अनुपरिथति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर से दिनांक 4 जून, 2024 को दिया गया।

डीआरटी-।।, मुंबई

एक्स. 19

... आवेदक

... प्रतिवादी

मेसर्स निपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भारत रहती है, इसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: फ्लैट नंबर 102, नीतू माया सीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 292, डाउन जर्मन बेकरी लेन, कोरेगांव पार्क, पुणे—411 001, और वैकल्पिक पताः फ्लैट नंबर 1103, महावीर दर्पण, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर-27, नेरुल, नवी मुंबई

श्री राहुल अशोक राजुरकर, मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एक वयस्व भारतीय निवासी, जिनका पता है: बी-17 / 7, गुरु गणेश नगर, कोथरूड डिपो के पास, कोथरूड, पूणे

श्रीमती वैदेही नरेन्द्र कोर्डे, मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक, एक वयस्व भारतीय निवासी, जिनका पता है: बंगला नंबर 6, प्लॉट नंबर 322, वैलेंटिना को–ऑप. एचएसजी. सोसाइटी नॉर्थ मेन रोड, सेंट्रल बैंक के सामने, कोरेगांव पार्क, पुणे-411 001,

श्री नरेन्द्र अच्युतराव कोर्डे, मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एक वयस्व भारतीय निवासी, जिनका पता है: बंगला नंबर 6, प्लॉट नंबर 322, वैलेंटिना को–ऑप. एचएसजी. सोसाइटी, नॉर्थ मेन रोड, सेंट्रल बैंक के सामने, कोरेगांव पार्क, पुणे-411 001, श्री शरद लाठी, मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एक वयस्क, भारतीय

निवासी, जिनका पता है: 321, हुडको कॉलोनी, नीमच-458 441, मध्य प्रदेश। मेसर्स क्रॉस ग्लोब बिजनेस सॉल्यूशंस, मेसर्स निप्को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक / आहर्ता, भारत के निवासी, जिसका पता है: 313 ई, पीकेटी-2, मयूर विहार 1, नई दिल्ली-110091,

और दूसरा पता है: 6484, सी-6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

फ्लूएंस इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड ल्लंबा पंजीकृत कार्यालय ई-16 / 1445 एस / एफ आर्य समाज रोड, बापा नगर करोल बाग,, नई दिल्ली-110005 में है। ्याचिकाकर्ता / आवेदक कंपनी

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से

दसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में

प्रकाशित किया जाने वाला विशापन

केंद्र सरकार के समझ

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

बी-2 विंग, दुसरी मंजिल, पर्यावरण मवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

ठपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

एतदडारा आम जनता को वह संबना दी जाती है कि वह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के क्रपीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी क मंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्वानांतरित करने व तिए दिनाक 10 जून, 2024 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेदान में पारित विद्रोप संकल्प के संदर्भ में कंपनी के

संगम ब्रापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानंतरण से गदि किसी व्यक्ति का हिन प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तं निवेशक शिकावत प्रस्प फाइन कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक १पध्य पत्र जिसमें लगके हित का प्रकार और उसके विरोध क को इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 14 दिनों के मीतन बी-2 विग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत ढाक द्वारा मेळ सकता है या स्टूड्ड कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नतिस्तित पंजीकृत कार्यालय है

ई-16/1445 एस/एफ जार्य समाज शेंड, बापा नगर करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आवेदक के लिए और उसकी और रं फ्लुएंस इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड दिनांकः 20.06.2024 दीपक गुप्ता (निदेशक) डीआईएनः 01471974 स्थान : दिल्ली

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031 दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ** संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न-वर्णित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुग्तेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं. 1.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह—ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
	10051723209	बीबीजी	बख्शी एंटरप्राइजेज सुश्री पिया बख्शी सुश्री रश्मि नैय्यर	12.06.2024	78,18,301 / —	विवरण धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो पलैट नं. 262 (भूतल) के स्वरूप में, जिसका अवस्तंभ क्षेत्रफल 1405 वर्ग फुट है तथा सर्वेट क्वार्टर एवं कार गैराज का 380 वर्ग फुट क्षेत्रफल है, जो सेक्टर—37, नोएडा, उत्तर प्रदेश — 201303 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— उत्तर—पूर्व : सामान्य सीढ़ियाँ, दक्षिण—पूर्व : खुला, दक्षिण—पश्चिम : सड़क, उत्तर—पश्चिम : खुला।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में** कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेंड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी **फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिजात)** को देय-भग्तेय धनराशियों की वसली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य-विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031. फोन : +91-44 4564 4000. फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) से निम्नवर्णित प्रत्याभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों और

सह—कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत हैं। जबिक वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, अतः उनके ऋण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनके द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को देय राशि संबंधित सूचनाओं में वर्णित की गई है, अधिक विवरण नीचे तालिका में दिया गया है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी देय होगा, जो उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर प्रभारित किया जाएगा। क अपा खाता अपा का कार्यरामें और धारा 19(9) के धारा 19(9) के

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	कजदारा आर सह—कर्जदारों का नाम	धारा 13(2) क तहत सूचना की तिथि		सम्पात्तं पता
1.	30596460	होम लोन	1. प्रांजल शर्मा 2. परिस्मिता देवी	29-05-2024	21,71,950.34/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर सी—901, परिमाप 1135 वर्ग फीट (सुपर एरिया) तथा 59.30 वर्ग मीटर यानी 638.31 वर्ग फीट (कार्पेट एरिया), टाइप 3 बीएचके, 9वां तल, टावर—सी, "क्लासिक होम्स" नामक बिल्डिंग, स्थित खसरा नंबर 380 एवं 381, ग्राम : भोआपुर, राज नगर एक्सटेंशन, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201003

आपसे ऊपर तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर ब्याज और अन्य लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्वत: कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को बकाया राशि की वसूली के लिए इसमें वर्णित बंधक सम्पत्तियों के संबंध में सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही करने हेतू बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आप उक्त प्रत्याभृत सम्पत्ति का हस्तांतरण बिक्री / पटटे अथवा किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं।

तिथि: 20-06-2024 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

दिनांक : 20-06-2024

स्थान : दिल्ली/राराक्षे

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

Phoenix ARC

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स (पूर्व की शिव बिल्डिंग), 139/140/बी/एल, सहार और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-400 057

13(२) के तहत माँग सूचना आप अधोलिखित कर्जदार, सह–कर्जदार ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण/वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आपके चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बाद में नीचे उल्लिखित असाइनमेंट वे

सरफैसी अधिनियम,

2002 की धारा

प्राधिकृत अधिकारी

अलग-अलग विलेखों के माध्यम से, उन्हें फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई23-10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) (फीनिक्स) को आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेज के अनुसार सभी अधिकारों, स्वामित्व, हितों, लाभों, आपसे प्राप्त होने वाली देनदारियों के साथ सौंपा गया है, जो कि उसी के पुनर्भृगतान के लिए अचल संपत्तियों के संबंध में सुजित अंतर्निहित प्रतिभृति हित के साथ उक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए है। फीनिक्स ने उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में और बकाया राशि की वसली के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की है, जिसकी विषय-सामग्री को अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार आप तक तामील के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। असाइनमेंट की तारीख, ट्रस्ट, कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधक संपत्तियां, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजी गयी मांग सूचना और उसके तहत दावा की गई राशि का विवरण

चीपक कुमार सिंह (कर्जदार का नाम) सिरता सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचिरतर सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) व्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच	क्र.	कर्जदार, सह-कर्जदारों /गारंटरों के नाम तथा पता,	प्रतिभूतियों का विवरण	1. ऋणदाता का नाम
1 दीपक कुमार सिंह (कर्जदार का नाम) सिरता सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचिरतर सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्या: HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानचे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्या: HL/0094/H/19/100053 3. मांग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि 1. गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) 2. 20.09.2022 3. 22/05/2024 4. रु. 1506583/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार स्वाल का मकान, उत्तरः – गंगा राम की सीमा वाली भूमि, पश्चिमः मिटाई लाल का मकान, उत्तरः – गंगा राम की सीमा वाली भूमि, दक्षिणः कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा। 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर ने स्वर्थ अरे भुगतान बोग्य, 18/05/2024 के घर, प्राचलाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) 2.20.09.2022 3. 06/06/2024 4. रु. 2483412/- (चौबीस लाख अस्सी का घर) सीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कार चर सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024	सं.		प्रातमूतिया यम विवरण	
1 दीपक कुमार सिंह (कर्जदार का नाम) सिरता सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचिरतर सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्या: HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/– (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी – दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्या: HL/0094/H/19/100053 3 अराजी संख्या 853के की गिरवी रखी गई संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट यानी 63.19 पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का समस्त भाग, सिंह पुत्र-पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्या: HL/0094/H/19/100053 1. गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) 2. 20.09.2022 3. 22/05/2024 4. रु. 1506583/– (रुपये पंद्र सिंह सुत्र पुत्री) का समस्त भाग, सिंह पुत्र पुत्री पुत्र के साथ । 1. गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) 2. 20.09.2022 3. 17/05/2024 के के साथ पुत्र सुत्र पुत्र पुत्र पुत्र के साथ पुत्र सुत्र पुत्र पुत्		ૠળ હાતા સ., ૠળ તાશ		
पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचिरितर सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 1 वन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 समस्त भाग, क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट यानी 63.19 वर्ग मीटर, मौजा गणेशपुर, परगना शिवपुर, तहसील 2. 20.09.2022 3. 22/05/2024 4. रु. 1506583/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भुगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। 1 गृहल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भुगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। 2 वन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053				3. मांग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि
पुत्र/पुत्री/पत्नी रामचिरितर सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरिता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 समस्त भाग, क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट यानी 63.19 वर्ग मीटर, मौजा गणेशपुर, परगना शिवपुर, तहसील 3. 22/05/2024 4. रु. 1506583/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भुगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053	1			
मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. सिरंता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 वर्ग मीटर, मौजा गणेशपुर, परगना शिवपुर, तहसील थे. 2. 20.09.2022 3. 22/05/2024 4. रु. 1506583/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय और भूगतान तक लागू ब्याज के साथ। प्लॉट नंबर 80 वाके मौजा नरहौली प्रियनगरी मथुरा पूर्वा में 20 प्रियनगरी कोड- 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर में भीम सेन जायसवाल का घर, दिक्षण में नाहर सिंह कार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024 स्वाकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख छह हजार सीमाएं, पूर्वः रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सिंग की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सैनाएं, पूर्वः रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सैनाएं, पूर्वः रोग रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सैनाहर सौ विरासी मात्र) 17/05/2024 के से युग पान वोग्य, 18/05/2024 पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 के स्वाकृ वोग्य सौ विरासी मात्र) 17/05/2024 के स्वाकृ वोग्य सौ विरासी मात्र) 17/05/2024 के साथ पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 के साथ सौ विरासी मात्र) 17/05/2024 के साथ सौ वाला भूमि, पश्चिम: सौ वाला का ममनर होला भूमि, पश्चमा सौ विरासी मात्र) 17/05/2024 के साथ सौ विरासी मात्र) 17/05/202	۱'۱			
सिता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह, मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी – दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह काख छह हजार सीमाएं, पूर्व: रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सिंहा ते एवं सीमाएं, पूर्व: रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिम: सिंहा ते			समस्त भाग, क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट यानी 63.19	पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामाँ थाना शिवपुर, 221003. ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/– (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी – दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्राता देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरचंडी, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्राता देवा पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्राता देवा थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024 सिमाएं, पूर्वः रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिमः 4. रु. 1506583/– (रुपये पंद्रह लाख छह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय और नगतान वोग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान वोग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान वोग्य, 18/05/2024 माप 1800 वर्ग फीट, पुलिस स्टेशन के पास, पिन पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024			वर्ग मीटर, मौजा गणेशपुर, परगना शिवपुर, तहसील	2. 20.09.2022
ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) मिटाई लाल का मकान, उत्तरः – गंगा राम की सीमा पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भूगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। "चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी – दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 गीता देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरचंडी, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भूगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। "पांच सौ तिरासी मात्र) 17/05/2024 तक देय औ भूगतान योग्य, 18/05/2024 तक देय औ स्वाल को देय औ भूगतान योग्य, 18/05/2024 तक देय औ स्वाल को देय औ स्वाल को देय औ स्वाल के साथ।		सरिता सिंह, दीपक कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी कन्ही सिंह,	और जिला वाराणसी में स्थित, नीचे दिए अनुसार	3. 22/05/2024
ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) स्वान्त के ह्या रुपयो प्राप्त के साथ। स्वान्त के		मकान नं. एस 13 15 मुहल्ला तामा थाना शिवपुर, 221003.	सीमाएं, पूर्वः रामकरण की सीमा वाली भूमि, पश्चिमः	4. रु. 1506583/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार
स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख पिचानबे हजार रुपये) 2 चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रेमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रेमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का समस्त भाग, सीमाएं : पूर्व में 20 प्रेमेट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर मं भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह स्वर्थ से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ। 1. गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व कोड) प्रेच माप 1800 वर्ग फीट, पुलिस स्टेशन के पास, पिन पूर्नावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व कोड) 2.20.09.2022 3. 06/06/2024 का घर, हिला में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024		ऋण खाता संख्याः HL/0055/H/19/100028		
पिचानबे हजार रुपये) विचानबे हजार रुपये) विचानबे हजार रुपये मानविष्ठ (पूर्व रुपये) विचानबे हजार रुपये प्राचित्र (पूर्व रुपये) विचानबिक्तविक्र (पूर्व रुपये) विचानबिक्र (पूर्व रुपये)		स्वीकृत ऋण राशिः रु. 1295000/- (केवल बारह लाख		भुगतान योग्य, 18/05/2024 से पूर्ण भुगतान तक
नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 गीता देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरचंडी, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053		पिचानबे हजार रुपये)		लागू ब्याज के साथ।
नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 गीता देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरचंडी, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 त्रहण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053	2	चन्द्रभान (कर्जदार का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी - दुर्ग सिंह, 80	प्रिय प्लॉट नंबर 80 वाके मौजा नरहौली प्रियनगरी	मथरा 1. गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का
गीता देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी हरचंडी, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का घर। 2.20.09.2022 3. 06/06/2024 में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह का घर। हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024				, पिन पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में विमला देवी का घर, उत्तर 3. 06/06/2024 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का घर। \$3. 06/06/2024 4. रु. 2483412/- (चौबीस लाख अस्सी का घर, दक्षिण में नाहर सिंह कतार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024				
प्रमोद कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी चन्द्रभान सिंह, 80 प्रिय नगरी नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 में भीम सेन जायसवाल का घर, दक्षिण में नाहर सिंह का घर। 4. रु. 2483412/- (चौबीस लाख अस्सी हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024		3 3	, , ,	
नरहौली थाना निकट मथुरा एनएच 2 मथुरा, 281001 का घर। हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2 त्रहण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 का घर। हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2				
ऋण खाता संख्याः HL/0094/H/19/100053 तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024				हजार चार सौ बारह रुपये मात्र) 17/05/2024
l .		9		तक देय और भुगतान योग्य, 18/05/2024 से
			लाख	पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज के साथ।

छियालीस हजार नौ सौ पंद्रह रुपये)। अतः आप कर्जदार तथा सह-कर्जदारों/जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छड़ाने के के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। कुपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस बीच आपको उपर्युक्त सम्पत्ति का हमारी सहमति के बिना विक्रय, पट्टे अथवा अन्य रूप में उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभृतियों

स्थान : लखनऊ तिथि : 15.01.2021

को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

कृते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई23-10 के ट्रस्टी

अधिकृत प्राधिकारी

www.readwhere.com